

मानस का पोषण : बाल अवसाद के प्रारंभिक लक्षणों की पहचान



आकांक्षा कपूर*

बचपन तो आदर्श स्वप्न से खुशी, जिज्ञासा और नित नई खोज का समय होता है। यद्यपि कश्ची कश्चार दुःख की भावना की अनुभूति भी विकास की प्रक्रिया का उक स्वभाविक आयाम ही है, फिर भी बच्चों में अवसाद की पहचान कर पाना उक बहुत चुनौतिपूर्ण कार्य बन जाता है, क्योंकि यह वयस्कों की आंति सहज स्पष्ट नहीं हो पाता। हमारे तीव्र गति से विकासमान समाज में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ भी तेजी से उभर रही हैं, इन समस्याओं से छोटे-छोटे बच्चे भी अस्थूते नहीं रह पा रहे हैं। समय रहते सहायता के हस्तक्षेप कर पाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि बाल-अवसाद के प्रारंभिक लक्षणों की ही तत्काल पहचान कर ली जाए।

मूड और व्यवहार में बदलाव

- निरंतर दुखी और चिड़चिढ़ा रहना
- देर तक दुखी रहना, बार-बार रोना या लगातार मुँह फुलाउ रहना किसी भी बच्चे के दैनिक जीवन पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है।
- इन लक्षणों पर ध्यान देकर उसे ढाढ़स बंधाते हुए उसके दुःख के कारण को समझना और उसे उन भावनाओं के भंवर से निकलने में सहायता करना बहुत महत्वपूर्ण होता।

सामान्य गतिविधियों में झंचि कम होना

- यदि आपका बच्चा आपनी सामान्य अभिभूतियों, खेलकूद या सामाजिक अंतर्क्रियाओं से दूर होने का प्रयास कर रहा हो तो यह उक खतरे की घंटी की तरह ही है।
- मित्रों, परिवार की घटनाओं/उत्सवों से दूर होना उसकी संप्रेरणा उवं आनंद की भावना के कमजोर पड़ने की निशानी है।
- उनसे खुलकर चर्चा करने और उनकी अस्थिरि के मूल कारण को समझने से इस समस्या के निदान/समाधान में बहुत सहायता मिल सकती है।

निद्रा उवं भूख के चक्रों में बड़े बदलाव

- निद्रा चक्र में बड़े बदलाव आना, जैसे कि नींद लगने में कठिनाई, बार-बार उठ बैठना या फिर हर समय उनींदा रहना भी अवसाद का लक्षण हो सकता है।

* डॉ. आर.सी. आर्ह. लाइसेंस प्राप्त मनोवैज्ञानिक

- श्रूत लगाने के समय में स्पष्टतः दिखाई देने वाले बदलाव, खाने में अस्थिर होना या फिर बहुत ज्यादा खाने लगना आदि पर श्री ध्यान दिया जाना चाहिए।

उकाग्रता या सीख पाने कठिनाई

यदि आपका बच्चा स्कूल में कुछ सामान्य कार्यों में कठिनाई ड्रावुभव कर रहा है, किसी काम पर उकाग्रता नहीं रख पा रहा, या उसके शैक्षणिक निष्पादन में गिरावट आ रही हो तो यह श्री उसके समक्ष भावनात्मक चुनौतियों का परिणाम हो सकता है।

मूड से आणे

शारीरिक शिकायतें : बार-बार सिरदर्द, पेट दर्द या अन्य ड्राकारण शारीरिक कष्ट की शिकायतें भावनात्मक संकट का चिन्ह हैं और ये शिकायतें शहायता के लिए कर्ज पुकार ही हैं।

स्वयं आत्मघाती या जोखिम भरा व्यवहार : स्वयं को शारीरिक आघात पहुंचाना, जैसे कि काट लेना या खुरच लेना या फिर खातरनाक हरकतें करना आदि पर तुरन्त ध्यान दें। ये श्री गंभीर भावनात्मक दर्द के चिन्ह हैं और तुरंत हस्तक्षेप कर बच्चे को संशालने की जरूरत होती है।

स्वाभिमान की भावना में परिवर्तन : क्या आपका बच्चा आपने बारे में नकारात्मक निराशाजनक बातें करता है? ड्रलण-थलण रहने लगा है या आपने आपको बेकार या निकम्मा कहने लगा है? यह ड्रात्मसम्मान की हानि को दर्शाता है जिसका आधारभूत कारण अवसाद ही है।

उदाहरण

- सामान्यतः बहिरोन्मुखी आदिति ने आपने प्रिय खेल फुटबाल में हिस्सा लेने और आपने मित्रों से दूसी बनाना शुरू कर दिया। बार-बार पेट दर्द की शिकायतें करती, और सोने में श्री उसे दिक्कत होने लगी, प्रायः रोते-रोते ही सोने लगी।
- हर्ष का स्कूल में प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता था, किन्तु वह पिछड़ने लगा। अन्य सामान्यतः प्रिय गतिविधियों से श्री उसे अस्थिर होने लगी। बड़ी जल्दी वह किसी श्री बात पर उछाड़ने और आपने आई-बहनों से उलझने लगा। उक तरह से वह आपने आप में सिमटा जा रहा था।
- हमेशा खुश रहने वाली अक्षिता ड्राचानक आपने आपको 'निरर्थक' कहने लगी और 'बस गायब' हो जाने की बात करने लगी। उसकी श्रूत कम होने लगी, हमेशा थकी-थकी रहने लगी, यहां तक कि आपनी साफ-सफाई की श्री अनदेखी करने लगी।

बाल अवसाद के प्रारंभिक चिन्हों की पहचान कर उनका निवारण करने में मित्रों, पड़ोसियों, स्कूल और अभिभावकों की श्रूमिकाएं

मित्रों की श्रूमिका

बच्चों के बड़े होने के क्रम में उनके सामने आ रही कठिनाईयों के समय में उनके मित्र अवसाद के प्रारंभिक लक्षणों की पहचान में निरायिक श्रूमिका निशा सकते हैं। वे ड्रलण-थलण रहने, चिढ़चिड़ने, खाने और सोने के व्यवहार में बदलाव तथा नितांत निराशाग्रस्ती आदि को सहज ही आंप सकते हैं। इस प्रकार ड्रावलोकन और संवेदनशील मित्र वयस्कों को बहुत मूल्यवान जानकारी प्रदान करके अवसाद में फंसने जा रहे मित्रों को समय रहते आवश्यक हस्तक्षेप के माध्यम से बचाने बहुत सहायक हो सकते हैं। मित्र बाल्यावस्था में अवसाद के प्रारंभिक लक्षणों की पहचान में आपनी ड्रावलोकन, सहायतापूर्ण और संवेदी प्रकृति के द्वारा बहुत निरायिक श्रूमिका निशा सकते हैं। संवाद की स्वतंत्रता और बच्चों को आपनी भावाभिव्यक्ति के लिए सुरक्षित परिवेश

प्रदान कर मित्र शीघ्र ही ड्रावसाद की पहचान में सहायक बन सकते हैं। यह आवश्यक है कि वे प्रारंभिक लक्षणों को समझकर विश्वस्त वयस्कों को उसकी जानकारी देने के साथ-साथ उपयुक्त विशेषज्ञ सहायता पा रहे मित्र के साथ शी बने रहे (उसे ड्राकेला नहीं पड़ने दें)। इस प्रकार साथ निभाने वाले मित्र बच्चों के बाल्यकाल की मानसिक समस्याओं के निदान और स्वस्थता में बड़ा सकारात्मक योगदान दे सकते हैं।

पड़ोसियों की श्रूमिका

बचपन में ड्रावसाद के प्रारंभिक लक्षणों को पहचानने में पड़ोसी शी एक महत्वपूर्ण श्रूमिका निभा सकते हैं। वे शी बच्चे के व्यवहार में ड्रालग-थलग रहने, अन्य बच्चों के साथ के खेलों और गतिविधियों में अचि कम होने आदि को आसन मनोविषाद को जानकर उसके परिवार के वयस्कों को सावधान कर सकते हैं। इस प्रकार बच्चे तथा उसके परिवार को विशेषज्ञ सहायता पाने में एक सहारे का अप धारण कर सकते हैं। साथ ही सामाजिक संपर्क और भावनात्मक सहारे के माध्यम से शी पड़ोसी बच्चे की स्वस्थता में योगदान कर सकते हैं। निर्बाध संवाद तथा सहायक समुदायिक परिवेश बाल-ड्रावसाद को समय रहते पहचानने और उसके समाधान के प्रयास में बहुत ही कारण रहते हैं।

स्कूल की श्रूमिका

स्कूल शी बच्चे की मनोस्वस्थता की समस्याओं के निदान और समाधान में एक बड़ा योगदान कर सकते हैं। मानसिक समस्या के प्रारंभ को सबसे पहले आंपने वाले वयस्कों में शिक्षक और स्कूल के कर्मचारी शामिल रहते हैं। बारंबार बच्चों से हो रहे संपर्क से वे उनके व्यवहार और शैक्षिक प्रणाली में बदलाव तथा सामाजिक अंतर्क्रियाओं से ड्रालगाव को तुरंत पहचान जाते हैं।

शिक्षकों, विद्यालय कर्मियों, परामर्शदाताओं और मनोवैज्ञानिक के साझे प्रयास से छात्र-छात्राओं को अपनी मानसिक स्वस्थता विषयक चुनौतियों के समाधान के लिए उपयुक्त सहायता मिल सकती है। निर्बाध संवाद और समझ को बढ़ावा देकर, मनोस्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम चलाकर, समकक्ष सहयोग समूह बनाकर तथा स्वस्थता कार्यक्रमों का संचालन करके स्कूल ऐसे वातावरण की रचना कर सकते हैं जिसमें बच्चे अपनी समस्याओं पर निस्संकोच सहायता पा सकते हैं।

आभिभावकों की श्रूमिका

बाल ड्रावसाद के प्रारंभिक लक्षणों का निदान कर पाने में आभिभावकों की श्रूमिका नितांत महत्वपूर्ण होती है। वे अपने बच्चों के साथ बहुत-सा समय बिताते हैं और उनके सामान्य व्यवहार तथा मूँह से भलीप्रकार परिचित होते हैं। वे सहज ही जान सकते हैं कि जो काम करने में उनके बच्चों को बहुत आनंद आता था, कहीं वे उनसे विमुख तो नहीं हो रहे, कहीं आचानक दुखी होकर तो नहीं बैठ जाते, चिढ़चिड़ते तो नहीं या बुर्सा तो नहीं करने लगे, अन्य लोगों से सामाजिक संपर्क से दूर तो नहीं आग रहे या उन्हें नींद आने अथवा नहीं आने की समस्या तो नहीं आ रही कहीं, उनकी श्वेत बहुत अधिक या कम तो नहीं हो रही तथा उनके शैक्षिक कार्यों में शिथिलता तो नहीं आ गई। आभिभावक बच्चों को सुरक्षित परिवेश देकर जहां वे अपने मन की बात खुलकर कह सकें, विकास केन्द्रित विचार पनप सके, परस्पर सुदृढ़ संबंध विकसित हो सकें और संधार्यता में संवर्धन हो, बच्चों के मानसिक विकास में बहुत सहायक हो सकते हैं। ध्यान रहे कि किसी शी मानसिक समस्या की त्वरित पहचान बच्चे की स्वस्थता-यात्रा में बहुत शीघ्र सुखद परिणाम ला सकती है। आइए हम सभी अपने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को वरीयता देते हुए चुनौतिपूर्ण समय में उनका हाथ थामकर चलें।

क्या काम करें?

बाल ड्रावसाद का ईलाज एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें चिकित्सीय तथा सहारा देने की प्रक्रियाओं का मिश्रण शामिल होता है। ध्यान रहे कि बाल ड्रावसाद के सभी मामले पूरी तरह से ठीक तो नहीं हो पाते, किन्तु प्रश्नावारी चिकित्सा विभिन्न लक्षणों में सुधार कर ड्रावसाद घसित की स्वस्थता में काफी योगदान कर सकती है। बाल ड्रावसाद की चिकित्सा में ये प्रमुख घटक शामिल होते हैं:

विशेषज्ञ द्वारा आंकलन/मूल्यांकन

यह आवश्यक है कि एक कुशल विशेषज्ञ मानसिक स्वस्थता का सर्वांगीण आंकलन करके बच्चे के आवसाद की चिकित्सा की उपयुक्त योजना का निर्धारण करे।

उपचारात्मक हस्तक्षेप

विभिन्न उपचारात्मक विधियां, जैसे कि बोध्य व्यवहार उपचार, क्रीड़ा उपचार, परिवार केन्द्रित उपचार आदि बच्चों को आपनी समस्याएँ समझकर आपनी आवनाओं, विचारों और व्यवहार को संयत बनाने में बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुई हैं।

झौषधियां

कुछ मामलों में बच्चों को आवसादरोधी दवाएँ भी दी जाती हैं, किन्तु यह उक्त बहुत गंभीर निर्णय होता है और किन्हीं बाल मनोशास्त्री द्वारा ही संपूर्ण आंकलन के बाद लिया जाना चाहिए।

अभिभावकों की चिकित्सा में आणीदारी

प्रभावित बच्चों के माता-पिता को चिकित्सा प्रक्रिया से जोड़े रखना जरूरी है। उन्हें भी आवसाद की समस्या के सभी पक्षों की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे इसके लक्षणों को जानकर आपने बच्चे की समस्या के समाधान में प्रभावी संवाद और घर-परिवार में उक्त आच्छा वातावरण बनाने में सफल हो सकें।

स्कूल का समर्थन/सहयोग

स्कूली शिक्षक और कर्मचारी भी उक्त निर्णायिक उवं सुखकर, मैत्रीपूर्ण और सकारात्मक शैक्षिक वातावरण की स्थापना कर सकते हैं। इस संदर्भ में स्कूल द्वारा बच्चे को कुछ विशेष सुविधाएँ प्रदान करना जरूरी रहता है।

स्वस्थ्य आदतों को प्रोत्साहन

नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद का बच्चे के मूड और सम्बन्ध स्वस्थता पर बड़ा अच्छा प्रभाव रहता है।

सामाजिक सहयोग

परिवार के भीतर और बाहर भी उक्त सशक्त सकारात्मक सहयोग तंत्र का आपना ही महत्व होता है। दुसरी अंतर्राष्ट्रीय और मैत्रीपूर्ण व्यवहार से बहुत सहायता मिलती है।

आधारिक प्रश्नों का निदान-समाधान

आवसाद के कारकों को पहचान कर उनका निराकरण करना चिकित्सा प्रक्रिया का आवश्यक अंग है। इन कारकों में बाल्यकाल में ही परिवार, मित्रों तथा सहपाठियों आदि से मिले आघात या उनके दबाव आदि को ठीक से समझा जाना आवश्यक है।

यह आवश्यक है कि बाल मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक तथा उपचार-प्रक्रिया विशेषज्ञों से शलाह करने के बाद ही बच्चे की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार उसकी चिकित्सा प्रक्रिया का निर्धारण हो। प्रायः कठिपय लक्षणों में सुधार, बेहतर कार्य कार्यशीलता तथा समस्याओं का बेहतर स्वप से सामना कर पाने की क्षमता को ही चिकित्सा का लक्ष्य मानकर चलना चाहिए। धैर्य, निरंतर सहयोग उवं समर्थन तथा बहुआयामी कार्यविधि बाल आवसाद की सफल चिकित्सा के अंग सिद्ध होते हैं।

